

RPL/CORP/SE August 2, 2024

The Listing Department, BSE Limited, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai – 400001 Scrip Code: 517500 The Listing Department
The National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza,
Bandra Kurla Complex,
Bandra (E), Mumbai – 400051
Symbol: ROTO

Dear Sirs,

Sub: Newspaper advertisement - Notice for transfer of un-claimed dividend and equity shares of the Company to IEPF

In compliance with Regulation 30 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith copies of the newspaper advertisement published in terms of the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 regarding transfer of unclaimed dividend for 2016-17 and the related equity shares on which the dividend has remained un-claimed for seven consecutive years, to Investor Education and Protection Fund.

This has have been published on Friday, August 2, 2024 in the Delhi edition of Business Standard (English) and in the Delhi and NCR edition of Business Standard (Hindi).

This is for your information and records.

Thanking You

Yours Faithfully, For ROTO PUMPS LTD.

ASHWANI K. VERMA COMPANY SECRETARY

Encl.: A/a

#### ROTO PUMPS LTD.

#### FORM NO. 5

#### **DEBTS RECOVERY TRIBUNAL**

600/1, University Road, Near Hanuman Setu Mandir, Lucknow- 226007 (Area of Jurisdiction-Part of Uttar Pradesh) Summons for filing Reply & Appearance by Publication

ince 1968 >>>

[Summons to Defendant Under Section 19(3), of the Recovery of Debts due to Banks and Financial Institutions Act, 1993 read with Rules 12 and 13 of the Debts Recovery Tribunal (Procedure Rules, 1993)] Original Application No. 323 of 2024

Central Bank of India

Versus .....Defendants M/s Gayas Mohd and others

1. Mohd Akeel S/o Shri Mansab Ali R/o H.No. 107, Ashiyana Colony,

Meerut Road, Distt- Meerut (U.P.)- 250002. In the above noted application, you are required to file reply in paper book form in Two sets along with documents and affidavits (if any), personally o through your duly authorized agent or legal practitioner in this Tribunal after serving copy of the same on the Applicant or his counsel/duly authorized agent after publication of the summons and thereafter to appear before the Tribunal on 20.08.2024 at 10:30 A.M. failing which the application shall be heard and decided in your absence. Registra

**Debts Recovery Tribunal, Lucknow** 

..Applicant

ROTO PUMPS LTD.

ROTO PUMPS LTD.

Pumps Regd. Off.: Roto House, Noida Special Economic Zone, Noida – 201305 CIN: L28991UP1975PLC004152 Tel.: +91 120 2567902-05, Fax +91 120 2567911

Email: investors@rotopumps.com, Website: www.rotopumps.com NOTICE TO EQUITY SHAREHOLDERS

Sub: Transfer of equity shares and un-claimed dividend to Inve Protection Fund (IEPF) Account

This notice is published pursuant to the provisions of 124(6) of the companies act, 2013 ('Act') read with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 ("the Rules") notified by the Ministry of Corporate Affairs effective September 7, 2016. The Rules, inter alia, contain the provisions for transfer of all shares in respect of which dividend has been unclaimed for seven consecutive years or more in the demat account of IEPF Authority.

Unclaimed dividend for the financial year 2016-17 would become due for transferred to IEPF on 5th November, 2024. In compliance with the requirements set out in the Rules, the

Company has communicated to the concerned shareholders individually whose shares are, besides the shareholders whose un-claimed dividend is, liable to be transferred to the IEPF Account under the said Rules for taking appropriate action. The company has uploaded full details of such shareholders and shares due for transfer to

the IEPF Account on its website <a href="https://www.rotopumps.com">www.rotopumps.com</a>. Shareholders are requested to refe to <a href="https://rotopumps.com/unclaimed-dividend-shares/">https://rotopumps.com/unclaimed-dividend-shares/</a> to verify the details of the uncashed dividends and the shares liable to be transferred to the IEPF Account.

Shareholders may note that both the unclaimed dividend and corresponding share Shareholders may note that both the unclaimed dividend and corresponding shares transferred to the IEPF Account including all benefits accruing on such shares, if any, can be claimed back from the IEPF Authority after following the procedure prescribed in the Rules. Individual notices have been sent by the company to all the concerned shareholders to provide them an opportunity to claim their respective unpaid divided(s). In case the valid claims are not received from the concerned shareholders by 5th November 2024, necessary steps will be initiated by the Company to transfer the shares held by the concerned shareholders to the IEPF Demat Account without any further notice.

concerned shareholders to the IEPF Demat Account without any further notice. Shareholders holding shares in physical form and whose shares are liable to be transferred to the IEPF Account may note that the company would be issuing duplicate share certificate(s) in lieu of original held by them for the purpose of transfer of shares to the IEPF Account as per the Rules and upon such issue, the original share certificate(s) which are registered in their name will stand automatically cancelled and be deemed non-negotiable. The shareholders may further note that the details uploaded by the company on its website should be regarded and shall be deemed adequate notice in respect of issue of duplicate share certificate(s) by the company for the purpose of transfer of shares to the IEPF Account pursuant to the Rules.

Shareholders holding shares in Demat form may note that company shall transfer the shares by way of corporate action through the respective depositories (NSDL OR CDSL) to the IEPF Authority. In case the company does not receive any communication from the concerned shareholders by 5th November, 2024, the company shall with a view to adhering with the requirements of the rules, transfer the shares to the IEPF Account by the

adhering with the requirements of the rules, transfer the shares to the IEPF Account by the due date as per the procedure set out in the rules. No claim shall lie against the Company in respect of the unclaimed dividend amount and shares transferred to IEPF Account pursuant to the said rules. However, it may be noted that the concerned shareholders can claim the shares and dividend(s) from the IEPF Authority by submitting an online application in the prescribed Form IEPF -5 available on the website <a href="www.iepf.gov.in">www.iepf.gov.in</a> and sending a physical copy of the same to the Company along with the requisite documents enumerated in the FORM IEPF-5.

Shareholders are requested to review their shareholding and take necessary action claim their shares. For any further assistance please contact the company or RTA. In case of any query on the above matter, shareholders may contact Mr. Ashwani K Verma Company Secretary, Roto Pumps Limited, "Roto House', Noida Special Economic Zone Noida - 2010305 Tel: 0120 2567902 or e-mail at investors@rotopumps.com

For Roto Pumps Ltd

ASHWANI K. VERMA COMPANY SECRETARY Place: Noida Date: 01-08-2024

AXIS BANK
Retail Asset Centre: Axis Bank Ltd. Gigaplex, NPC-1, 3rd Floor MIDC, Airoli Knowledge
Park Mugulsan Road Airoli Navi Mumbai-400708 Also at: Axis Bank Ltd., Axis House
Tower T-2, 2nd Floor, I-14, Sector-128, Noida Expressway, Jaypee Greens Wishtown, Noida (U.P.)-201301
Corporate Office: Axis House', Block-B, Bombay Dyeing Mills Compound, Pandurang Budhkar Marg, Worli,

Ellibridge, Ahmedabad-380006

POSSESION NOTICE UNDER SARFAESI ACT 2002

Whereas The undersigned being the Authorized Officer of Axis Bank Ltd. under the Securitisation, Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of the powers conferred under section 13 (12) read with Rule 9 of the Security Interest (Enforcement) rules 2002, issued demand notice upon the Borrower(s)/ Co-Borrower(s)/ Guarantor(s)/ Mortgagor(s) mentioned below, to repay the amount mentioned in the notice within 60 days from the date of receipt of the said notice. The Borrower(s)/ Co-Borrower(s)/ Go-Borrower(s)/ Co-Borrower(s)/ C POSSESSION NOTICE UNDER SARFAESI ACT 2002

Name of Borrower / Co-Borrower	Description of Property	Date of Demand Notice.  Date of Possession.  Amount in Demand Notice (Rs.)
Shakya	Flat No.705, 7th floor, Tower No.1, The Express Park View apartment, Greater Noida, District Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh & Plot No. GH-10B, Sector CHI-V, Greater Noida City, District Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh	27th July,2024
Parekh &	Flat No- 0301A, on 3rd Floor, In the building "B" Regency park, GH-03B, GH-03B,Sec-16C, Greater Noida, Ghaziyabad, U.P. 201009	30th Sep,2022 27th July,2024 Rs. 31,52,711/-

The above-mentioned Borrower(s)/ Co-Borrower(s)/ Guarantor(s)/ Mortgagor(s) are hereby given a 30 days' Notice to repay the amount, else the mortgaged properties will be sold on the expiry of 30 days' from the date of publication of this Notice, as per the provisions under the Rules 8 and 9 of Security Interest (Enforcement) Rules 2002. Sd/- Authorized Officer Date: 02.08.2024, Place: Noida

Axis Bank Ltd.

ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण नोएडा सिटी जिला गौतम बुद्ध नगर (उ०प्र०) सार्वजनिक सूचना

नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत M/S Solitaire Infrahome Pvt. Ltd. भूखण्ड संख्या–GC-03K/GH-03, Sector-16C, Greater Noida. को दिनांक 30.12.2013 को मानचित्र स्वीकृति प्रदान की गयी थी। तदोपरान्त निर्माय स्वानुमा अद्योग प्राप्त पार्व वा तिवस्तीय विकासकर्ता द्वारा (Group Housing Project) का आंशिक अधिमोग प्रमाण–पत्र हेतु आवेदन संख्या–CC-4618 दिनांक 01.07.2022 ऑनलाईन् के माध्यम से आवेदन किया गया है। तत्कम में UP-Apartment Act & - 2010, Amendment 2016 in Section-4 Sub Section-B के अन्तर्गत परियोजना के आवंटियो से आपत्ति / सझाव अन्तरात पारवाजना क आवादया से आपारा / सुझाव आमंत्रित किये जाने का प्रावच्या ने हैं। इस सम्बन्ध में विकासकर्ता द्वारा प्रस्तुत स्वीकृति मानचित्र एवं Declarations as per UP Apartment Act-2010 परीक्षण किसी भी कार्यदिवस में सुबह 9:30 से सार्थ 6:00 बजे के मध्य नियोजन विभाग में तथा प्राधिकरण की वेबसाईट पर किया जा सकता है।

ु । अतः उपरोक्त परियोजना के आवंटियों द्वार Sanction Map एवं Declarations as per UP
Apartment Act-2010 के सम्बन्ध में सूचना
प्रकाशित करने के 30 दिनों के अन्दर
आपनियां/सुझाव आमंत्रित की जाती है। उपरोक्त के निहितार्थ अपनी आपत्तियां लिखित रूप में अपने आवंटन पत्र, नाम, पता एवं दूरभाष नम्बर के साथ कार्यालय समय व कार्यदिवस में ग्रेटर नौएडा कायालय समय व कायावरस म ग्रेटर नाएडा प्राधिकरण के मुख्य प्रशासिनिक कार्यात्वन, मुखण्ड संख्या–1, नॉलेज पार्क–4, ग्रेटर नोएडा में स्थित महाप्रबच्धक (नियोजन / वास्तुः) को सम्बोधित करते हुए सूचना फ्राधीश होने के 30 दिवसों के अन्दर जमा करायी जा सकती है।

महाप्रबन्धक (नियो०/वास्तु०) ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

**Chola** 

**CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE COMPANY LIMITED** CHOLA CREST" C 54 & 55, Super B-4, Thiru Vi Ka Industrial Estate, Guindy, Chennai - 600032, Ind Rajsamand Branch Office: Opp. Sharma Hospital, Nathdwara Road, Kankroli (Rajsamand)-313333

DEMAND NOTICE UNDER SECTION 13(2) OF THE SECURITISATION & RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS

AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT 2002

Ou, the under mentioned Borrower / Mortgagor is hereby informed that the company has initiated proceedings against you under the ecuritization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and that the Notice under 13 (2) of he Act sent to you by Registered Post Ack. Due for Borrover/s has been returned undelivered. Hence, you are hereby called upon to take notice and pay the outstanding loan amount mentioned against the said account with interest accruing there from within 60 days from the date of this publication, failing which the company will proceed against you by exercising its right under Sub-Sec (4) of Section 13 of he Act by enforcing the below mentioned security to realize its dues with interests and costs. It is needles to mention that this notice is addressed to you without prejudice to any other remedy available to the company.

Loan Date of Demand Notice & Amount Outstanding Name and Address of the Borrower/s / Loan A/c No. Description of the properties/Secured Asset 72024 & Sq.Ft. Located At Revenue Village Kotharia, Tehsil- Nathdwara, Distt. Rajsamand (Hereinatter Retiered As The Said Property). Four Corners Are Tuther to thereon of the St. Sq.Ft. and Sc. Sq.Ft. East: Own House, West: Main Road, North: Main Road, South: Farm Of Man Singh And House Masuring 525 sq.Ft. East: Own House, West: Main Road, North: Main Road, South: Farm Of Man Singh And House Masuring 652 sq.Ft. East: Own House, West: Main Road, North: Main Road, South: Farm Of Man Singh Rad AUTHORISED OFFICER, Cholamandalam Investment And Finance Company Limited oan Account No. ML01RJD00000027057 29/07/2024 & (Loan Account No. ML01RJD0000027057 (1) LAXMAN MEGWAL (Applicant) (2) MANGI MEGHWAL (Co\_Applicant) Both are Resi. at: HOSPITAL KE PASS CHAK-A, KOTHARIYA-313323. NPA Date: 10/05/2024 Rs.20.43 847/as **27/07/2024** with further

Date :29/07/2024, Place : Rajsamand

## Himachal Pradesh Jal Shakti Vibhag

interest thereon

#### **NOTICE INVITING E-TENDER**

The Executive Engineer Jal Shakti Division, Baggi invites tenders on behalf of Governor of Himachal Pradesl from approved eligible contractors for the following works(s) through e- tending process :-

Sr.	Name of work	E/Cost	Earnest	Time
No			Money	limit
1	Providing LIS Bagga and Chalog in GP Sainj Tehsil Chachiot Distt.	Rs.	Rs.	Three
	Mandi (HP) (SH:- Providing, laying, Jointing, testing and carriage of	13,47,031/-	27,000/-	Months
	MSERW pipe & laying, Jointing, testing and carriage of GI pipe for			
	Rising main and supplying & installation of Pumping machinery with			
	allied accessories) (Under NABARD) (Balance Work)			

Last date of filling/uploading the tender through e-tendering: 19/08/2024 upto 05.00PM The tender form and other detail and condition can be obtained from the website https://hptenders.gov.in or from office of Jal Shakti Division Baggi upto the date specified above. Executive Engineer Jal Shakti Division, Baggi.

## #ICICI Bank

Registered Office: ICICI Bank Tower, Near Chakli Circle, Old Padra Road, Vadodara – 390007, Gujarat

Corporate Office: ICICI Bank Towers, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai 400051, Maharashtra

#### **Branch Relocation Notice**

On Behalf of ICICI Bank Ltd., JNV Colony Bikaner Branch

This is to intimate you that with effect from October 4, 2024, we are relocating to a more convenient location. The address of the new location is as mentioned below:

New Location: ICICI Bank Ltd., 2nd D 109, JNV Colony Bikaner, Rajasthan-334003.

There would be no change in your Account Number or the security items issued to you.

The following guidelines are applicable for customers holding lockers with our JNV Colony Bikaner Branch.

In the process of relocating our branch, we will also be relocating the safe deposit lockers to the address, as specified above. The shifting of the locker units will begin on October 2, 2024 and they will be installed at the new location on October 4, 2024.

In case you wish to continue to operate your locker at the new location, we request you to empty your locker and take charge of its contents. Please do so before October 2, 2024. You may replace them at the new location, anytime, during banking hours after October 4, 2024, at your convenience.

In case you are unable to empty your locker, we shall have to move the locker units, along with its content. The locker units will be moved under proper supervision and every precaution will be taken to handle them carefully.

Assuring you of the best services, at all times. Sincerely. Branch Manager, JNV Colony Bikaner Branch

## TIMEX GROUP INDIA LIMITED

CIN: L33301DL1988PLC033434

Regd. Office: E-10, Lower Ground Floor, Lajpat Nagar- III, New Delhi-110024 Tel: 91-120-4741300, Email: investor.relations@timex.com, Website: www.timexindia.com

Extract of Un-audited Financial Results for the guarter ended 30 June, 2024

	_		(Rs. in lakhs excep	t per share data)
Particulars	Quarter ended 30 June 2024 (un-audited)	Quarter ended 31 March 2024 (un-audited)	Quarter ended 30 June 2023 (un-audited)	Year ended 31 March 2024 (audited)
Total income from operations	10867	9206	10629	41891
Net Profit / (Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	325	938	567	2776
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	325	938	567	2776
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	243	708	425	2084
Total Comprehensive Income for the period [comprising profit/(loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)]	243	701	425	2077
Equity Share Capital (Face Value of Re. 1 each)	1010	1010	1010	1010
Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of previous year	-	-	-	-
Earnings Per Share (of Re. 1 each) Basic & Diluted	0.06*	0.35*	0.24*	1.36

\* Not Annualised Notes:-

Place

1. The above financial results have been reviewed by the Audit Committee and taken on record by the Board of Directors in its meeting held on July 31, 2024.

. The above is an extract of the detailed format of Financial Results for the quarter ended 30 June, 2024 filed with the BSE Ltd. under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results for the quarter ended 30 June, 2024 are available on the Stock Exchange website (www.bseindia.com) and on Company website (www.timexindia.com).

For and on behalf of the Board of Directors **Timex Group India Limited** 

Deepak Chhabra Managing Director DIN: 01879706



## Maral Overseas Limited



## **EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE 2024**

(₹ In Lakhs except per share data)

	(	Year Ended		
Particulars	30.06.2024	31.03.2024	30.06.2023	31.03.2024
	<b>Un-Audited</b>	Audited	Un-Audited	Audited
Total Income from Operations (Net)	25,865	27,105	23,100	98,298
Net Profit (+)/Loss (-) for the period (before tax, Exceptional and / or Extra ordinary items)	(647)	769	(1,496)	(847)
Net Profit (+)/Loss (-) for the period before tax (after Exceptional and/or Extra ordinary Items)	(647)	769	(1,496)	(847)
Net Profit (+)/Loss (-) for the period after tax (after Exceptional and/or Extra ordinary Items)	(645)	588	(1,442)	(977)
Total Comprehensive income for the period (Comprising Profit (+)/Loss (-) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)	(590)	514	(1,433)	(946)
Equity Share Capital	4,151	4,151	4,151	4,151
Other Equity (reserves) as shown in the Balance sheet	-	-	-	9,003
Earning Per Share (Face value of Rs. 10/-each) (before and after Extra ordinary items) (EPS for the quarter/period not annualised)				
Basic	(1.55)	1.42	(3.47)	(2.35)
Diluted	(1.55)	1.42	(3.47)	(2.35)

## Notes:

**Place** 

Dated

- The above is an extract of detailed format of unaudited financial results for the quarter 30th June, 2024 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The detailed unaudited financial results and this extract were reviewed and recommended by Audit Committee and approved by Board of Directors of the company in their respective meeting held on 1st August, 2024. The full format of the unaudited financial results are available on the Stock Exchanges websites (www.bseindia.com, www.nseindia.com) and on the Company's website (www.maraloverseas.com).
- The Statutory Auditor has reviewed the results for the quarter ended 30th June, 2024 and issued an unqualified
- The figures of the last quarter ended 31st March, 2024 are the balancing figures between the audited figures in respect of the full financial year ended 31st March, 2024 and the unaudited published year to date figures ended 31st December 2023, being the date of the end of the third quarter of the financial year which were subject to limited

By Order of the Board **For Maral Overseas Limited** 

Shekhar Agarwal : Noida (U.P.) **Chairman & Managing Director and CEO** : 01st August, 2024 DIN: 00066113

## CIN: L17124MP1989PLC008255

Registered Office: Maral Sarovar, V. & P.O. Khalbujurg, Tehsil Kasrawad, Distt. Khargone - 451 660, (M.P.) **Phone:** +91-7285-265401-265405, **Fax:** +91-7285-265406 Corporate Office: Bhilwara Towers, A-12, Sector-1, Noida - 201 301, (U.P.) Phone: +91-120-4390300 (EPABX), Fax: +91-120-4277841 E-mail: maral.investor@lnjbhilwara.com, Website: www.maraloverseas.com

IndusInd Bank (3)

: 31 July, 2024

: Noida

Registered Office: IndusInd Bank Limited, 2401 Gen. Thimmayya Road (Cantonment), Pune - 411 001, India. Zonal Office: Financial Restructuring & Reconstruction Group, 11th Floor. Hyatt Regency Complex, New Tower, Bhikaji Cama Place, New Delhi-110066

## **E-AUCTION SALE NOTICE**

E-Auction Sale Notice for Sale of immovable Properties mortgaged to Bank under Securitization and Reconstruction of Financial assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002

**PUBLIC NOTICE FOR E-AUCTION FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES** 

read with proviso to Rule 8(6) of the Security Interest (Enforcement) Rule, 2002. Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s)/Mortgagor(s)/Guarantor(s) that, the Authorized Officer of IndusInd Bank Ltd. has taken physica possession of the following properties mentioned hereunder, pursuant to demand raised vide notice issued under Sec 13(2) of the Securitization and Reconstruction of Financia ssets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 in the following loan account with right to sell the same on "AS IS WHERE IS. AS IS WHAT IS. WHATEVER IS THERE IS AND WITHOUT RECOURSE BASIS" for realization of Bank's dues plus interest & other expenses as detailed hereunder and whereas consequent upon failure to repay the dues, the undersigned in exercise of power conferred under Section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the said Rules proposes to realize the Bank's dues by sale of the said property/ies The sale of the below-mentioned Properties shall be conducted by way of E-Auction through Web Portal: https://sarfaesi.auctiontiger.net.

DESCRIPTION OF IMMOVABLE PROPERTIES / DETAILS OF ACCOUNT / AMOUNT / EMD / ETC

Name of Branch	Name of the Mortgagor	Details of property	Amount as per		Last Date	Inspection	Reserve Price
& Account/	& Guarantors of	Dotaile of property	Demand Notice	of	for Receipt	Date & Time	EMD
Borrower	the property		<b>Demand Notice Date</b>	e-Auction	of Bids		Bid increase amount
	Mortgagor: M/s. Savemax			29.08.2024	28.08.2024	17.08.2024	Rs. 5,49,00,000/-
New Delhi	Wholesale Club Private Limited	Lower Ground Floor having a	Date of Demand	12:30 PM	up to	01:00 PM	Rs. 54,90,000/-
M/s. Savemax Wholesale	(in liquidation)	super area of 15058 Sq. Ft.	Notice: 01.Oct. 2019	to	up to	to	KS. 54,90,000/-
Club Private Limited (in	Guarantors: Mr. Vaibhav Singhal S/o Mr. Gian Chand Aggarwal, Ms. Seema Gupta W/o Mr. Gian	situated in the commercial	Dues as on 30-Sept-	01:30 PM	4:00 PM	03:00 PM	Rs. 2,00,000/-
liquidation)	S/o Mr. Gian Chand Aggarwal,	complex known as Parker	2019 with further intere	st along with th	e costs and e	xpenses till the	date of full and final
Account No. 618000010792	Ms. Seema Gupta W/o Mr. Gian	Mall" G. I. Road, N.H-1, Sector-	payment under the Cre	dit Facilities		,	

TERMS & CONDITIONS: 1. The e-Auction is being held on "AS IS WHERE IS, AS IS WHAT IS, WHATEVER IS THERE IS AND WITHOUT RECOURSE BASIS" 2. The interior

bidders shall submit their EMD details and documents through Web Portal: https://sarfaesi.auctiontiger.net (the user ID & Password can be obtained free of cost by registering name with https://sarfaesi.auctiontiger.net) through Login ID & Password. EMD shall be deposited by way of Demand Draft (Beneficiary - Sundry A/c Asset Mgmt.) payable at Par, latest b 4.00 P.M on or before the dates mentioned in the table above. Please note that the Cheques shall not be accepted as EMD amount. The interested bidders are also required to submi KYC documents i.e. Copy of PAN Card; Proof of Identification/ Address Proof (KYC) viz. self-attested copy of Voter ID Card/ Driving License/ Passport/ Ration Card etc. and should carry their original for verification. 3. To the best of knowledge and information of the Authorized Officer, there is no encumbrance, or claims except as disclosed as per Banks's record with respect to the Property including statutory dues like property taxes, society dues, electricity dues etc. The Bank however shall not be responsible for any outstanding statutor dues / encumbrances / Municipal Corporation Dues / maintenance charges / electricity dues, charges/tax arrears etc, if any and it will be the sole liability of the buyer. The intending bidders should make their own independent inquiries regarding the encumbrances, maintenance charges, land-use, taxes, statutory dues, electricity charges, waters charges, title o Property etc and should inspect & satisfy themselves, prior to submission of bid. Once bid is submitted, it will be presumed that intended bidder has satisfied himself / herself from a aspects with respect to property. 4. Properties can be inspected strictly on the above-mentioned date and time. 5. The property situated at Parker Mall is a large hall comprising of & integrated units, 1 of which exclusively mortgage with IndusInd Bank Ltd. having area of 15058 Sq Ft. (as mentioned in the table herein above) and remaining units are exclusive mortgaged with IDBI Bank I td. South Indian Bank & HDEC Bank I td. respectively 6. The intended bidders who have deposited the EMD and require assistance in creating Login ID Password, uploading data, submitting bid, training on e-bidding process etc., may contact our service provider M/s E- Procurement Technologies Ltd (Auction Tiger), Ahmedabad Helpline Nos: 079-68136880/68136837, Mr. Ram Sharma Mobile: 9978591888, Help Line e-mail ID: ramprasad@auctiontiger.net and support@auctiontiger.net and for an property related query may contact the Authorized officer as mentioned above in office hours during the working days (10:00 AM to 5:00 PM). 7. The highest bid shall be subject to approval of IndusInd Bank Limited. Authorized Officer reserves the right to accept/ reject all or any of the offers/ bids so received or cancel the auction with respect to any specific property, no. of Property or all, without assigning any reasons whatsoever. His decision shall be final & binding. In case highest bidder fails to deposit entire sale proceeds within time stipulated in the terms and condition of this auction notice, the Authorized Officer at his discretion may offer the property to the second highest bidder, but it cannot be claimed as a right 8. Interested parties are advised to independently verify the area of land, building and other details. Secured Creditor does not take any responsibility for any errors / omissions discrepancy / shortfall etc. in the Secured Asset or for procuring any permission, etc. or for the dues of any authority established by law. 9. Sale shall be subject to confirmation by the secured creditor. The successful bidder will have to deposit 25% of the total bid amount/purchase consideration (after adjusting amount of EMD) immediately upon acceptance of bic e. on the same day but not later than the next working day and balance 75% of the bid amount/purchase within 15 days of confirmation of the sale of immovable properties or such extended period as may be agreed upon by the purchaser, the secured creditor, in any case not exceeding 3 (three) months. 10. In case the successful bidder fails to pay the balance sale price as stated above, all deposits including EMD shall be forfeited without any notice by Bank to the said successful bidder and the properties shall be resold. 11. The EMD o unsuccessful bidder will be returned within 05 working days of closure of the auction sale proceedings. No interest shall be paid on EMD refunded. 12. The purchaser shall bear the stamp duty and charges, including those of sale certificate registration charges, all statutory dues payable to government, taxes and rates, outgoing both existing and future related to the properties. 13. Authorised Officer of Industrial Bank Limited reserves the right to postpone/cancel the auction without assigning any reason thereof.

(FOR DETAILED TERM AND CONDITIONS PLEASE REFER TO OUR WEBSITE https://www.indusind.com and Web Portal of M/s E- Procurement Technologies Ltd. (Auction Tiger), https://sarfaesi.auctiontiger.net)

STATUTORY 15 DAYS SALE NOTICE UNDER RULE 8(6) OF THE SARFAESI ACT, 2002 is may also be treated as notice u/r 8(6) Rule 9(1) of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 to borrowers/ mortgagors and Guarantors of the above said loan about the holdir

of E-Auction Sale on the above-mentioned date. The borrower/ guarantors/mortgagors are hereby notified to pay the sum as mentioned above along with upto dated interest and ancillary expenses before the date of Auction, failing which the property will be auctioned/sold and balance dues, if any, will be recovered with interest and cost Authorised Officer, IndusInd Bank Ltd. Date: 02.08.2024 Place: New Delhi

(रूपए लाख में, सिवाय प्रति शेयर डेटा)

सरफंसी अधिनियम 2002 के तहत कब्जा सूचना
चृंकि वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिमृतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिमृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के
अतर्गत और प्रतिमृति हित (प्रवर्तन) नियमावर्ती, 2002 के नियम के साथ पठित घारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त
शवितयों के अनुपातन में एक्सिस बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी मौजूदा आंधिरताक्षरों ने उत्त सूचना की
प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि का मुगतान करने के लिए नीचे वर्णित
ऋणी(यों)/सह—ऋणी(यों)/गारंटर(ओं)/गिरवीकर्ता(ओं) को बुताने के लिए मांग सूचना जारी की थी
ऋणी(यों)/सह—ऋणी(यों)/गारंटर(ओं)/गिरवीकर्ता(ओं) राशि का मुगतान करने में असफल रहे, एतद्वरारा
ऋणी(यों)/सह—ऋणी(यों)/गारंटर(ओं)/गिरवीकर्ता(ओं) और सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि
अधीडस्ताक्षरों ने प्रतिमृत्ती हित (प्रवर्तन) नियमावर्ती, 2002 के नियम 8 के साथ पठित उत्तर अधिनियम की धारा
13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शित्तियों के अनुपालन में यहां नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा ले लिया है। विशेष
रूप से ऋणी(यों)/सह—ऋणी(यों)/गारंटर(ओं)/गिरवीकर्ता(ओं) और सर्वसाधारण को एतद्वरारा संपत्ति के
साथ तेन न्देन न करने की चेतावनी दी जाती है और सर्वतित के साथ किया योग वाण कोई भी लेनन देन एविसस बैंक
के प्रमार का विषय होगा। ऋणी(यों)/सह—ऋणी(यों)/गारंटर(ओं)/गारंटर(ओं)/गिरवीकर्ता(ओं) का ध्यान प्रतिमृतित
संपत्तियों के लिए ने अमनिवत है।

ऋणी// सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत कब्जा सचना

ऋणी /ू	संपत्ति का विवरण	मांग सूचना की तिथि
सह—ऋणी	V4100 47144V-1	कब्जा तिथि
का नाम		मांग सूचना में राशि (रु.)
राजेश	फ्लैट नं. 705, 7वीं मंजिल, टॉवर नं. 1, एक्सप्रेस	17 जनवरी, 2024
रामभरोसेलाल	पार्क व्यू अपार्टमेंट, ग्रेटर नोएडा, जिला	27 जुलाई 2024
शाक्या	गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश व प्लॉट नं. जीएच—10बी, सेक्टर सीएचआई—V , ग्रेटर नोएडा सिटी, जिला गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश	₹. 39,27,477 /—
ऋषिका दिनेश	फ्लैट नं. 0301ए, तीसरी मंजिल पर, ''बी'' बिल्डिंग में,	30 सितंबर, 2022
पारेख व	रेजेंसी पार्क, जीएच-03बी, जीएच-03बी, सेक्टर	27 जुलाई 2024
मुकेश कुमार	16सी, ग्रेटर नोएंडा, गाजियाबाद, उ.प्र. 201009	रु. 31,52,711 ∕ −
~~~ <del>~~~~</del>	And the mine the form	

उक्त वर्णित ऋणी(यों) / सह—ऋणी(यों) / गारंटर(ओं) / गिरवीकर्ता(ओं) को एतदद्वारा राशि का भुगतान करने के लिए 30 दिनों की सूचना दी जाती है अन्यथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 व 9 के तहत प्रावधान के अनुसार गिरवी संपत्तियों को इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों की समाप्ति पर बेचा जाएगा हस्ता./— प्राधिकृत अधिकारी, एक्सिस बैंक लि.

दिनांक : 02.08.2024 स्थान : नोएडा

## Coforge कोफोर्ज लिमिटेड

CIN: L72100DL1992PLC048753 पंजी. कार्यालय : 8, बालाजी एस्टेट, तृतीय तल, गुरू रविदास मार्ग कालकाजी, नई दिल्ली — 110019

फोन: +91 (11) 41029297. ई-मेल: investors@coforge.com, वेबसाइट: https://www.coforge.com

## 32वीं वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना

. एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कम्पनी के सदस्यों की 32वीं वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम शुक्रवार, 23 अगस्त, 2024 को अप. 04.30 बजे कम्पनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") व संबद्ध प्रावधानों तथा सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2019 ("सेबी सूचीयन विनियमावली") के साथ पठित कार्पोरेट मंत्रालय द्वारा जारी इसके जनरल सर्कलर्स दिनांकित 08 अप्रैल. 2020, 13 अप्रैल, 2020, 05 मई, 2020, तथा नवीनतम सर्कूल दिनांकित 25 सितम्बर, 2023 ("एमसीए सर्कूलर्स" के रूप में संदर्भित) तथा भारतीय प्रतिभृति ए विनिमय बोर्ड द्वारा जारी इसके सर्कुलर नंबर सेबी/एचओ/सीएफडी/ सीएफडी/सीएमडी/सीआईआर/पी/2020/79 दिनांकित 12 मई, 2020 तथ सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएफडी / सीएमडी2 / सीआईआर / पी / 2021 / 11 दिनांकित 15 जनवरी, 2021, सर्कुलर नंबर सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएफडी / सीएमडी2 , जीतरा, 2021, राषुर्धाः निर्माणका । विकास स्थिति । सीआईआर/पी/2022/62 दिनांकित 13 मई, 2022 और सर्कुलर नार् सेबी/एचओ/सीएफडी/ सीएफडी/सीएमडी-पीओडी2/पी/सीआईआर/ 2023/167 दिनांकित 7 अक्टूबर, 2023 तथा अन्य संबद्ध सर्कुलर्स ("संबी सर्कुलर" के रूप में संदर्भित इंस्टीट्यूट ऑफ कम्पनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया द्वारा जारी सामान्य बैठकों के विषय में सचिवीय मानक ("एसएस–2") तथा किसी अन्य लागू विधि, नियमावली एवं विनियमावली (अस्थायी रूप से लागू तथा समय समय पर संशोधित उसके सांविधिक संशोधन(नों) अथव पुनर्–अधिनियमन(नों) सहित) के अनुसरण में ई–वोटिंग के माध्यम से, किसी एक स्थान पर . सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो विजुअल मोड ("ओएवीएम") के माध्यम से उक्त एजीएम के आयोजन की सूचना में विनिर्दिष्ट व्यवसाय निष्पादन हेत आयोजित की जाएगी। कम्पनी का पंजीकत कार्यालय एजीएम हेत स्थल मान जाएगा। वीसी / ओवीएएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने हेतु अनुदेश एजीएम आयोजन की

.. कम्पनी 01 अगस्त, 2024 को ई—मेल, जिसमें 32वीं एजीएम की सूचना तथा 31 मार्च, 2024 के समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु वार्षिक रिपोर्ट दी गई है, नैशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेउ (एनएसडीएल) के माध्य से उन सभी सदस्यों को भेज चुकी है, जिनकी ई–मेल आईडी उ डिपॉजिटरीज अथवा कम्पनी के पास पंजीबद्ध हैं। उपरोक्त एमसीए एवं सेबी सर्कुलर्स वं दृष्टिगत एजीएम सूचना की भौतिक प्रतियां प्रेषित नहीं की जा रही हैं तथा एजीएम सूचना औ वित्तीय वर्ष 24 हेतु वार्षिक रिपोर्ट केवल ई—मेल द्वारा भेजी गई है।

सदस्यगण, जिनको सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है, इसे कम्पनी की वेबसाइर www.coforge.com पर 'investors' सेक्शन से (सूचना हेतु वेबलिंक https://www.coforge.com/hubfs/AGM-Notice-2024.pdf वार्षिक रिपोर्ट हेतु वेबलिंक https://www.coforge.com/hubfs/Annual-Report-2024.pdf) डाउनलोड कर सकते है अथव उसकी सॉफ्टकॉपी उपरोक्त ई–मेल आईडी पर कम्पनी सचिव को एक लिखित अनुरोध भेजकर अथवा कम्पनी के पंजीकत कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। एजीएम की उपरोक्त सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट नेशनल स्टॉक एक्सचेन्ज की वेबसाइट <u>https://www.nseindia.com</u> और बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट https://www.bseindia.com जहां कम्पनी की प्रतिभूतिय सूचीबद्ध हैं तथा एनएसडीएल (ई—वोटिंग सेवा प्रदाता) की वेबसाइट<u>www.evoting.nsdl.com</u> प र्गे उपलब्ध है।

उन शेयरधारकों, जिनकी ई–मेल आईडी'ज पंजीकृत नहीं हैं, से उनकी ई–मेल आईडी'उ पंजीकृत करने हेतु (i) संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट से (डीमैटीरियलाइज्ड शेयर्स के मामले में) अथवा (ii) कम्पनी से <u>investors@coforge.com</u> पर अथवा अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड (आरटीए) से (भौतिक शेयर्स के मामले में) rta@alankit.com पर सम्पर्क करने तथा प्रपत्र आईएसआर—1 (कम्पनी की वेबसाइट पर उपलब्ध) में हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र, पैन कार्ड तथ् पता प्रमाण और उक्त प्रपत्र में वर्णित अन्य दस्तावेजों की स्व–सत्यापित प्रतियों सहित भेजन द्वारा सम्पर्क करने का अनरोध किया जाता है। ई—मेल का सफल पंजीकरण होने पर शेयरधारव . एनएसडीएल वेबसाइट पर जाकर अपने क्रेडेन्शियल्स उपलब्ध करवाकर पासवर्ड ऑनलाइन बना सकते हैं। किसी संशय की स्थिति में शेयरधारक <u>evoting@nsdl.com</u> <u>investors@coforge.com</u> को लिख सकते हैं।

वीसी/ओवीएएम के माध्यम से बैठक में भाग लेने संबंधी अनुदेश तथा रिमोट ई—वोटिंग प्रतिभागिता अथवा एजीएम में ई—वोटिंग के माध्यम से वोट डालने का ढंग एजीएम आयोजन की सचना में दिया गया है। भौतिक रूप में अथवा इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयरों के धारक ऐर . यरधारकों, जिनके द्वारा अपना ई–मेल पता कम्पनी अथवा संबंधित डीपी के पास पंजीकृत नह करवाया गया है, के लिए लॉगइन क्रेडेन्शियल्स के संबंध में अनुदेश भी सचना में दिए गए हैं वीसी/ओवीएएम सुविधा के माध्यम से बैठक में भाग ले रहे सदस्यों की गणना कम्पर्न अधिनियम, 2013 की धारा 103 के अधीन गणपूर्ति के प्रयोजन हेतु की जाएगी।

इसके अतिरिक्त, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 और कम्पनीज (प्रबंधन और प्रशासन नेयमावली, 2014, कम्पनीज (प्रबंधन और प्रशासन) संशोधन नियमावली, 2015 द्वारा संशोधित के नियम 20 तथा सेबी (सूचीयन दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली. 2015 के नेयम 44 के प्रावधानों और सामान्य बैठकों के विषय में सचिवीय मानकों ('एसएस–2') तथ अन्य लागू प्रावधानों के अनुसरण में, कम्पनी इसके सदस्यों को 32वीं एजीएम की सूर्चना में उल्लेखित व्यवसाय के संबंध में एजीएम के स्थान से इतर किसी अन्य स्थान से इलेक्टॉनिव साधनों द्वारा वोट डालने की सुविधा प्रदान कर रही है। कम्पनी ने रिमोट ई–वोटिंग सुविध प्रदान करने के लिए एनएसडीएल की सेवाएं अनुबंधित की हैं।

रिमोट ई—वोटिंग की अवधि **मंगलवार, 20 अगस्त, 2024 को प्रातः 09.00 बजे (आईएसटी)** प्रारंभ होगी तथा **बृहस्पतिवार, 22 अगस्त, 2024 को साय 05.00 बजे (आईएसटी)** समाप होगी। तदुपरांत एनएसडीएल द्वारा ई–वोटिंग मॉड्यूल वोटिंग के लिए निष्क्रिय कर दिय जाएगा तथा उक्त तिथि एवं समय के पश्चात ई–वोटिंग की अनुमति नहीं होगी। कम्पनी के वे सदस्य, जो **विच्छेदन तिथि शुक्रवार, 16 अगस्त, 2024** को भौतिक अथवा डिमेटीरियलाइज रूप में शेयर धारक हैं. अपने वोट रिमोट ई—वोटिंग द्वारा अथवा एजीएम में वोट डाल सकते हैं सदस्यों के वोटिंग अधिकार विच्छेदन तिथि को कम्पनी की प्रदत्त शेयर पूंजी में उनके शेयरों व अनुपात में होंगे। वह व्यक्ति, जिसका नाम विच्छेदन तिथि को डिपॉजिटरीज द्वारा अनुरक्षि लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर अथवा सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज मौजद होगा. केवल वहीँ रिमोट ई–वोटिंग अथवा एजीएम में वोटिंग की सुविधा पाने का हकदार होगा। वह व्यक्ति जो विच्छेदन तिथि को सदस्य नहीं है, इस सूचना को जानकारी के निमित्त मात्र समझे। ई—वोटिंग / एजीएग में भाग लेने की प्रक्रिया एजीएम की सूचना में दी गई है।

कोई व्यक्ति, जो सूचना के प्रेषण के पश्चात कम्पनी के शेयर अर्जित करता है तथा कम्पनी क सदस्य बनता है और विच्छेदन तिथि **शुक्रवार, 16 अगस्त, 2024** को शेयरधारक है evoting@nsdl.com अथवा investors@coforge.com पर अनुरोध भेजकर लॉगइन आईडी तथ पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। तथापि, यदि आप रिमोट ई—वोटिंग के लिए एनएसडीएल के साथ पहले से पंजीबद्ध हैं. तब आप अपनी मौजदा यजर आईडी तथा पासवर्ड का उपयोग अपना वोद डालने के लिए कर सकते हैं।

इसके अतिरिक्त, एजीएम में भी ई—वोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी तथा एजीएम में उपस्थित वे सदस्य, जिनके द्वारा रिमोट ई—वोटिंग द्वारा वोट नहीं डाला गया है, एजीएम में अपने अधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। वे सदस्य, जो रिमोट ई–वोटिंग द्वारा वोट डाल चुके है एजीएम में उपस्थित होने के हकदार होंगे, परंतु दोबारा वोट डालने के हकदार नहीं होंगे।

मैसर्स नित्यानन्द सिंह ऐण्ड कम्पनी, कम्पनी सेक्रेटरीज के श्री नित्यानन्द सिंह, कम्पनी सचिव (सदस्यता सं. एफसीएस 2668: सीओपी 2388) को वोटिंग तथा रिमोट ई—वोटिंग प्रक्रिया निष्प& और पारदर्शी ढंग से संचालित करने के लिए संवीक्षक नियुक्त किया गया है। एजीएम व परिणाम कम्पनी के चेयरमैन अथ्वा विधिवत प्राधिकृत कम्पनी संचिव द्वारा एजीएम समापन के दे कार्यदिवस के भीतर घोषित किए जाएंगे तथा स्टॉक एक्सचेंजेज को सचित किए जाएंगे और कम्पनी की वेबसाइट नामतः www.coforge.com पर तथा एनएसडीएल (ई—वोटिंग सेवा प्रदाता की वेबसाइट <u>www.evoting.nsdl.com</u> पर भी प्रदर्शित किए जाएंगे।

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के संबंध में अथवा वीसी / ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम में भाग लेने व संबंध में किसी संदेह या शिकायत की स्थिति में सदस्यगण https://www.evoting.nsdl.com व डाउनलोड सेक्शन में उपलब्ध सदस्यों के लिए बहुधा पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू'ज) तथ ई–बोटिंग यूजर मैनुअल देख सकते हैं अथवा श्री अमित विशाल, उप उपाध्यक्ष, एनएसडीएल पल्लवी म्हात्रे, वरिष्ठ प्रबंधक को <u>evoting.nsdl.com</u> पर अनुरोध भेजक एनएसडीएल से सम्पर्क कर सकते हैं अथवा टोलफ्री नंबर 022—4886 7000 पर सम्पर्क क सकते हैं। सदस्यगण कम्पनी सचिव को <u>investors@coforge.com</u> पर अथवा कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के पते पर भी लिख सकते हैं।

सदस्यगण कृपया नोट करें कि सेबी ने सेबी सूचीयन दायित्व विनियमावली के विनियम 40 र संशोधन किया है तथा आदेश दिया है कि प्रतिभूतियों के अंतरण हेतु सभी अनुरोध, उनके ट्रांसभिशन एवं ट्रांसपोजीशन अनुरोधों सहित, केवल डिमैटीरियलाइज्ड रूप में प्रोसेस किए जाएंगे। उसको ध्यान में रखते हुए तथा भौतिक शेयरों के साथ जुड़े सभी जोखिम समाप्त करने तथा डिमैटीरियलाइजेशन के विभिन्न लाभ प्राप्त करने के लिए, सदस्यों को उनके द्वारा भौतिक रूप में धारित शेयर डिमैटीरियलाइज करवाने की सलाह दी जाती है। सदस्यगण इस संबंध में कम्पनी / आरटीए से सम्पर्क कर सकते हैं।

इसके अतिरिक्त अधिनियम के निबन्धनों में सदस्यगण जो उनके दारा धारित शेयर्स हेत अपर नामिती नियक्त करने के इच्छक हैं, नामांकन प्रपत्र (प्रपत्र – एसएच 13) में आवेदन कर सक हैं। पूर्वतर नामांकन समाप्त या निरस्त करने तथा नया नामांकन रेकार्ड करवाने के इच्छुव सदस्य अपना आवेदन प्रपत्र आईएसआर—3 अथवा एसएच—14. यथास्थिति, में प्रस्तुत क सकते हैं। उक्त प्रपत्र कम्पनी की वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं। अभौतिक रूप में धारित शेयर्स के मामले में सदस्यों से अपना विवरण अपने डीपी और अभौतिक रूप में धारित शेयर्स के मामले में आरटीए के पास जमा करने का अनुरोध किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, सेबी सर्कुलर नंबर SEBI/HO/ MIRSD/MIRSD\_RTAMB/P/CIR/2021/655 दिनांकि 03 नवम्बर, 2021, SEBI/HO/MIRSD/MIRSD\_RTAMB/P/CIR/2021/655 दिनांकित 14 दिसम्बर, 202<sup>,</sup> तथा SEBI/HO/ MIRSD/MIRSD\_RTAMB/P/CIR/2021/655 दिनांकित 16 मार्च, 2023 के अनुसरण ग सदस्यों से उनके नाम, डाक पता, ई–मेल पता, टेलीफोन / मोबाइल नंबर, स्थायी खाता क्रमांव (पैन), आदेशों, नामांकनों, प्राधिकार पत्र, बैंक विवरण जैसेकि बैंक का नाम तथा शाखा विवरण की सूचना इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित शेयरों के मामले में अपने डीपी को तथा भौतिक रूप र धारित<sup>ै</sup> शेयरों के मामले में आरटीए अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड को निर्धारित प्रपत्र आईएसआर—1 और अन्य प्रपत्रों में देने का अनरोध किया जाता है।

तिथि: 01 अगस्त. 2024

**स्थान** : नोएडा

कोफोर्ज लिमिटेड हस्ता / बरखा शर्म

ACS: 24060



पंजीकृत कार्यालय : आईएफसीआई टॉवर, 61 नेहरू प्लेस नई दिल्ली — 110 019 फोन : 011-41732000 वेबसाईट : www.ifciltd.com सीआईएन : L74899DL1993GOI053677

परिशिष्ट— IV ए [नियम 8(6) का परन्तुक देखें]

#### अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 और प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परंतूक के साथ पठित के अंतर्गत अचल आस्तियों की बिक्री के लिए ई—नीलामी बिक्री सूचना,

आम जनता को तथा विशेष रूप से उधारकर्ता / बंधककर्ता और गारंटर(ओं) को यह सूचना दी जाती है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति, जो सुरक्षित लेनदार के पास बंधक / प्रभारित है. जिसका प्रतीकात्मक कब्जा आईएफसीआई लिमिटेड (सरक्षित लेनदार) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, को "जहाँ है जैसा है", "जो है जैसा है" और <sup>"</sup>जो कुछ भी है" के आधार पर **04/09/2024** को **रु**. **37.79.35.239** / – की वसली (ब्याज की गणना 14 / 07 / 2024 तक की गई), साथ ही 15/07/2024 से संविदात्मक दरों पर अतिरिक्त ब्याज, साथ ही लागत, शुल्क, व्यय और अन्य डेबिट, सीडर इंफोनेट प्राइवेट लिमिटेड (उधारकर्ता) और गोल्फ टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। (बंधककर्ता),से आईएफसीआई लिमिटेड (सुरक्षित ऋणदाता) को देय। **आरक्षित मूल्य के लिए रु.11.01 करोड़ रुपये होगा और** बयाना राशि जमा (ईएमडी) रु.1.101 करोड़ रुपये होगी।

#### अचल संपत्ति का विवरण

भूमि का वह समस्त टुकड़ा और पार्सल, जो खसरा संख्या वाली संपत्ति का हिस्सा है, उसका विवरण नीचे दिया गया है

संपत्ति / सुरक्षित परिसंपत्तियों का विवरण भूमि के वे सभी टुकड़े और पार्सल या ज़मीनी विरासत और परिसर ₹.11.01 करोड़ रुफ जो प्लॉट नंबर के संबंध में पड़े और मौजूद हैं। 159, ब्लॉक–डी मे 621.32 वर्ग मीटर। ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-।, नई दिल्ली मे स्थित, सभी।भवनों, पी एंड एम, संरचनाओं, फर्नीचर, फिटिंग फिक्स्चर निर्माण आदि के साथ मेसर्स गोल्फ टेक्नोलॉजी पी लिमिटेड द्वारा विशेष प्रभार बनाते हुए आईएफसीआई लिमिटेड के पक्ष में निष्पादित किया गया। उस पर निर्माण किया गया।

उपर्युक्त अचल के संबंध में कोई ज्ञात बाधा नहीं है संपत्ति । बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया आईएफसीआई लिमिटेड में दिए गए लेंक को देखें। (सुरक्षित लेनदार की) वेबसाइट www.ifciltd.com

दिनांक : 02.08.2024 स्थान : नई दिल्ली प्राधिकत अधिकारी आईएफसीआई लिमिटेड

2 Roto pumps ince 1968 >>>

### ROTO PUMPS LTD.

louse, Noida Special Economic Zone, Noida – 201305 CIN: L28991UP1975PLC004152

Tel.: +91 120 2567902-05, Fax +91 120 2567911

Email: investors@rotopumps.com, Website: www.rotopumps.com NOTICE TO EQUITY SHAREHOLDERS

Sub: Transfer of equity shares and un-claimed dividend to Investor Education and

Protection Fund (IEPF) Account

his notice is published pursuant to the provisions of 124(6) of the companies act, 2013 Act") read with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit Fransfer and Refund) Rules, 2016 ("the Rules") notified by the Ministry of Corporate Affairs effective September 7, 2016. The Rules, inter alia, contain the provisions for transfer of al shares in respect of which dividend has been unclaimed for seven consecutive years of more in the demat account of IEPF Authority.

Inclaimed dividend for the financial year 2016-17 would become due for transferred to IEEPF on 5" November, 2024. In compliance with the requirements set out in the Rules, the Company has communicated to the concerned shareholders individually whose shares are, besides the shareholders whose un-claimed dividend is, liable to be transferred to the IEEPF Account under the said Rules for taking appropriate action.

The company has uploaded full details of such shareholders and shares due for transfer to he IEPF Account on its website <a href="www.rotopumps.com">www.rotopumps.com</a>. Shareholders are requested to refe to <a href="https://rotopumps.com/unclaimed-dividend-shares/">https://rotopumps.com/unclaimed-dividend-shares/</a> to verify the details of the uncashed lividends and the shares liable to be transferred to the IEPF Account.

Shareholders may note that both the unclaimed dividend and corresponding shares transferred to the IEPF Account including all benefits accruing on such shares, if any can be claimed back from the IEPF Authority after following the procedure prescribed in the Rules. Individual notices have been sent by the company to all the concerned shareholders to provide them an opportunity to claim their respective unpaid divided(s). In case the valid claims are not received from the concerned shareholders by 5th November

case the valid claims are not received from the concerned shareholders by 5th November 2024, necessary steps will be initiated by the Company to transfer the shares held by the concerned shareholders to the IEPF Demat Account without any further notice. Shareholders holding shares in physical form and whose shares are liable to be transferred to the IEPF Account may note that the company would be issuing duplicate share certificate(s) in lieu of original held by them for the purpose of transfer of shares to the IEPF Account as per the Rules and upon such issue, the original share certificate(s) which are registered in their name will stand automatically cancelled and be deemed non-negotiable. The shareholders may further note that the details uploaded by the company on its website should be regarded and shall be deemed adequate notice in company on its website should be regarded and shall be deemed adequate notice in respect of issue of duplicate share certificate(s) by the company for the purpose of transfer of shares to the IEPF Account pursuant to the Rules.

Shareholders holding shares in Demat form may note that company shall transfer the shares by way of corporate action through the respective depositories (NSDL OR CDSL)

to the IEPF Authority. In case the company does not receive any communication from the concerned shareholders by 5th November, 2024, the company shall with a view to adhering with the requirements of the rules, transfer the shares to the IEPF Account by the due date as per the procedure set out in the rules.

due date as per the procedure set out in the rules. No claim shall lie against the Company in respect of the unclaimed dividend amount and shares transferred to IEPF Account pursuant to the said rules. However, it may be noted that the concerned shareholders can claim the shares and dividend(s) from the IEPF Authority by submitting an online application in the prescribed Form IEPF -5 available on the website <a href="www.iepf.gov.in">www.iepf.gov.in</a> and sending a physical copy of the same to the Company along with the requisite documents enumerated in the FORM IEPF-5.

along with the requisite documents enumerated in the POWN IEFF-3. Shareholders are requested to review their shareholding and take necessary action to claim their shares. For any further assistance please contact the company or RTA. In case of any query on the above matter, shareholders may contact Mr. Ashwani K Verma Company Secretary, Roto Pumps Limited, "Roto House", Noida Special Economic Zone Noida - 2010305 Tel: 0120 2567902 or e-mail at investors@rotopumps.com

Place: Noida Date: 01-08-2024

For **Roto Pumps Ltd**. ASHWANI K. VERMA COMPANY SECRETARY

#### बी.ए.जी. फिल्म्स एण्ड मीडिया लिमिटेड BAG सीआईएन : L74899DL1993PLC051841

पंजीकत कार्यालय : 352, अग्रवाल प्लाजा, प्लॉट नं. 8, कोंडली, नई दिल्ली-11009 कॉर्पोरेट कार्यालय : एफसी-23, फिल्म सिटी, सेक्टर-16ए, नोएडा-201301 (उ.प्र.) दूरभाष : 91 120 460 2424, फैक्स नं. : 91 120 3911 401 वेबसाइट : www.bagnetwork24.in, ई-मेल : info@bagnetwork.in

#### बी.ए.जी. फिल्म्स एण्ड मीडिया लिमिटेड की वीसी (वीडियो कांफ्रेंसिंग)/ओएवं विजुअल साधनों) के माध्यम से आयोजित होने वाली 31वीं वार्षिक आम बैठक

द्वारा सूचना दी जाती है कि एजीएम आयोजित करने के लिए वितरित की जाने वाली31वीं एजीएम की सुच में निर्धारित व्यवसायों के लेन-देन के लिए बी.ए.जी. फिल्म्स एंड मीडिया लिमिटेड ('कंपनी') के सदस्यों की 31वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') बुधवार, 28 अगस्त, 2024 को शाम 4:30 बजे (भा.मा.स.) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी') / अन्य ऑडियो विजुअल साधनों ('ओएवीएम') के माध्यम से आयोजित की जायेगी। कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ('एमसीए') ने अपने सामान्य परिपन्न संख्या 20/2020 दिनांक 5 मई. 2020 के साथ पठित सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 और 17/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020, परिपत्र संख्या 02/2021 दिनांक 13 जनवरी, 2021, परिपत्र संख्या 21/2021 दिनांक 14 दिसंबर, 2021, 02/2022 दिनांक ५ मई २०२२ प्रिपुत्र संख्या १०/२०२२ दिनांक २८ दिसंबर २०२२ और साम्रान्य परिपुत्र संख्या ९/२०२३ दिनांक 25 सितंबर, 2023 (सामूहिक रूप से 'एमसीए परिपत्र' के रूप में संदर्भित) और भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड ('सेबी') ने अपने परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर/पी/2020/7 दिनांक 12 मई. 2020, सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/2021/11 दिनांक 15 जनवरी, 2021 परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/डीडीएचएस/पी/सीआईआर/2022/0063 दिनांक 13 मई, 2022, परिपत्र संख्य सेबी/एचओ/सीआरडी/पीओडी-2/पी/सीआईआर/2023/4 दिनांक 05 जनवरी, 2023 और सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएफडी-पीओडी-2/पी/सीआईआर/2023/167 दिनांक 7 अक्टूबर, 2023 ('सामृहिक रूप से सेबी परिपत्र के रूप में संदर्भित') ने सामान्य स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम के आयोजन की अनुमति दी है। कंपनी अधिनियम, 2013 'अधिनियम') के लागू प्रावधानों सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 'सचीबद्धता विनियम') के अनपालन में अन्य एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्रों के साथ, कंपनी के सदस्ये की 31वीं एजीएम वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

उक्त एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्रों के अनुपालन में, कंपनी की 31वीं एजीएम की सूचना और वित्तीय वर्ष 2023–24 की वार्षिक रिपोर्ट केवल इलेक्टॉनिक माध्यम से उन सभी सदस्यों के पास भेजी जा रही हैं. जिनके -मेल पते कंपनी या कम्पनी रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट या डिपॉजिटरी पार्टीसिपेंट्स के साथ पंजीकृत हैं। सदस्य ध्यान दें कि 31वीं एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 कंपनी की वेबसाइ www.bagnetwork24.in, स्टॉक एक्सचेंजों यानी बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट क्रमशः <u>www.bseindia.com</u> और <u>www.nseindia.com</u> पर उपलब्ध . हैं और 31वीं एजीएम की सूचना नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरीज लिमिटेड (एनएसडीएल)(रिमोट ई–वोटिंग सुविधा उपलब्ध कराने वाली एजेंसी) को वेबसाइट <u>www.evoting.nsdl.com</u> पर भी उपलब्ध हैं। सदस्य केवल वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकते हैं। एजीएम में शामिल होने के निर्देश 31वीं एजीएम की सूचना में दिए गए हैं। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों के

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के अनुसार कोरम की गणना के उद्देश्य से गिना जाएगा। कंपनी अपने सभी सदस्यों को 31वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर अपना वोट डालने के लिए रिमोट ई-वोटिंग सुविधा ('रिमोट ई-वोटिंग') प्रदान कर रही है। इसके अतिरिक्त, कंपनी वार्षिक आम बैठक के दौरान ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से मतदान की सविधा ('ई-वोटिंग') प्रदान कर रही है वार्षिक आम बैठक के दौरान रिमोट ई-वोटिंग/ई-वोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया 31वीं वार्षिक आम बैठक की सूचन

यदि सदस्यों ने कंपनी/डिपॉजिटरी के साथ अपना ई-मेल पता पंजीकत नहीं किया है, तो कपया वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए अपना ई-मेल पता पंजीकृत करने और ई-वोटिंग के लिए लॉगिन विवरण दर्ज करने के लिए

भौतिक रूप से शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए – कृपया आवश्यक विवरण जैसे कि फोलियो नंबर, सदस्य का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की प्रति, पैन (स्व–सत्यापित) और आधार (स्व–सत्यापित) info@bagnetwork.in या info@alankit.com पर ईमेल द्वारा प्रदान करें। डीमैट मोड में शेयर रखने वाले सदस्य अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागी से संपर्क करके य

info@bagnetwork.in पर ईमेल करके अपना ई-मेल आईडी पंजीकृत करवा सकते हैं। करने के लिए evoting@nsdl.com को अनुरोध भेज सकते हैं।

31वीं एजीएम की सचना, लाग काननों के अनसार, प्रेषण के लिए कट-ऑफ तिथि तक शेयर रखने वाले शेयरधारकों को उनके पंजीकृत ई-मेल पते पर यथासमय भेजी जाएगी।

. यदि आपके पास रिमोट ई-वोटिंग (एजीएम से पहले और एजीएम के दौरान) से संबंधित कोई प्रश्न/शिकाय है, तो आप <u>www.evoting.nsdl.com</u> के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध Frequently Asked Questions ('FAQs') for Shareholders तथा e-voting user manual for Shareholders देख सकते हैं या टोल-फ्री नंबरः 022 -4886 7000 voting@nsdl.com पर सुश्री पल्लवी म्हात्रे को अनुरोध भेज सकते हैं।

निदेशक मंडल के आदेशानसा कृते बी.ए.जी. फिल्म्स एंड मीडिया लिमिटेड

दिनांक: 01.08.2024 अजय मिश्रा स्थानः नोएडा कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

## टाइमेक्स ग्रुप इंडिया लिमिटेड

सीआईएन : L33301DL1988PLC033434

पंजीकृत कार्यालय : ई-10, लोअर ग्राउंड फ्लोर, लाजपत नगर-।।।, नई दिल्ली-110024 फोन : 91-120-4741300, ई-मेल : investor.relations@timex.com, वेबसाइट : www.timexindia.com

30 जून, 2024 को समाप्त तिमाही हेतु अ—लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का संक्षिप्त विवरण

	(***, *****					
विवरण	तिमाही समाप्त 30 जून 2024 (अ—लेखापरीक्षित)	तिमाही समाप्त 31 मार्च 2024 (अ—लेखापरीक्षित)	तिमाही समाप्त 30 जून 2023 (अ—लेखापरीक्षित)	वर्ष समाप्त 31 मार्च 2024 (लेखापरीक्षित)		
प्रचालनों से कुल आय	10867	9206	10629	41891		
अवधि हेतु शुद्ध लाभ / (हानि) (कर	325	938	567	2776		
अपवाद तथा/अथवा असाधारण मदों से पूर्व)						
अवधि हेतु शुद्ध लाभ / (हानि) कर से पूर्व	325	938	567	2776		
(अपवाद तथा / अथवा असाधारण मदों के बाद)	10.000	***************************************		0,440,040,00		
अवधि हेतु शुद्ध लाभ / (हानि) कर पश्चात	243	708	425	2084		
(अपवाद तथा/अथवा असाधारण मदों के बाद)	2000	25/38/08	2000/00/s	0.000040003		
अवधि हेतु कुल समावेशी आय [जिसमें अवधि हेतु लाभ/(हानि)	243	701	425	2077		
तथा अन्य समावेशी आय (कर पश्चात) तथा अन्य समावेशी आय						
(कर पश्चात) सम्मिलित है]			0.000			
इक्विटी शेयर पूंजी (अंकित मूल्य रू. 1 प्रत्येक)	1010	1010	1010	1010		
संचेय (पुनर्मूल्यन संचेय छोड़कर) जैसा कि पूर्व वर्ष के		-	-	-		
लेखापरीक्षित तुलनपत्र में दर्शाया गया है						
प्रति शेयर अर्जन (रू. 1/- प्रत्येक का) मूल एवं तनुकृत	0.06*	0.35*	0.24*	1.36		

### \*वार्षिककृत नहीं

थान : नोएडा

. उपरोक्त वित्तीय परिणामों की समीक्षा, लेखापरीक्षण समिति द्वारा की गयी है तथा तत्पश्चात् निदेशक मंडल द्वारा 31 जुलाई, 2024 को आयोजित अपनी बैठक में इनक अभिलेखन किया गया।

2 उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीयन दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 33 के तहत बीएसई लिमिटेड में प्रस्तुत किए गए 30 जून 2024 को समाप्त तिमाही हेत् वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सारिकत रूप है। 30 जून, 2024 को समाप्त तिमाही हेत् वित्ती परिणामों का पूर्ण विवरण स्टॉक एक्सचेन्ज की वेबसाइट (www.bseindia.com) पर तथा कम्पनी की वेबसाइट (www.timexindia.com) पर उपलब्ध है।

कृते एवं हिते निदेशक मंडल टाइमेक्स ग्रुप इंडिया लिमिटेड

हस्ता. /-दीपक छांबड प्रबंध निदेशव

तिथि : 31 जुलाई, 2024 डीआईएन : 01879706

# **JT<del>E</del>KT**

## जेटेक्ट इंडिया लिमिटेड (CIN - L29113DL1984PLC018415)

पंजी. कार्यालय : यूजीएफ-6, इन्द्रप्रकाश, 21, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली -110001. फोन नंबर: 011-23311924, 23327205;

ई—मेल: investorgrievance@jtekt.co.in; वेबसाइट: www.jtekt.co.in 30 जून, 2024 को समाप्त तिमाही हेतु अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों का विवरण

(₹ लाख में, सिवाय प्रति शेयर अर्जन डेटा)

	(**************************************				
क्र.	विवरण		तिमाही समाप्त		
सं.		30.06.2024	31.03.2024	30.06.2023	31.03.2024
		अनंकेक्षित	अनंकेक्षित	अनंकेक्षित	अंकेक्षित
1.	कुल आय	55,767.84	63,635.83	48,109.03	2,25,697.96
2.	अवधि हेतु कर पूर्व शुद्ध लाभ (अपवाद मदों से पूर्व)	2,005.85	4,885.23	1,754.39	13,906.01
3.	अवधि हेतु कर पूर्व शुद्ध लाभ (अपवाद मदों के पश्चात)	2,005.85	4,885.23	2,493.65	14,645.27
4.	अवधि हेतु कर पश्चात शुद्ध लाभ (अपवाद मदों के पश्चात)	1,487.63	3,429.67	1,865.95	10,686.43
5.	अवधि हेतु कुल समावेशी आय [जिसमें अवधि हेतु लाभ (कर पश्चात) तथा अन्य समावेशी आय (कर पश्चात) सम्मिलित हैं।	1,483.80	3,403.91	1,849.10	10,590.89
6.	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी (अंकित मूल्य ₹ 1/- प्रति शेयर)	2,542.80	2,542.80	2,444.80	2,542.80
7.	अन्य इक्विटी, जैसाकि अंकेक्षित तुलनपत्र में दर्शाया गया है (पुनरमूल्यन संचेय छोड़कर)	-	-	-	79,625.27
8.	प्रति शेयर अर्जन (ईपीएस) (अंकित मूल्य र 1/- प्रति शेयर) (तिमाही के लिए वार्षिककृत नहीं)				
	(क) मूल (ख) तनुकृत	0.59 0.59	1.35 1.35	0.73 0.73	4.20 4.20

- 1. दिनांक 30 जून, 2024 को समाप्त तिमाही हेतू अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों का उपरोक्त विवरण, अंकेक्षण समिति द्वारा पूनरीक्षित और निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 01 अगस्त, 2024 को आयोजित उनकी बैठक में अनुमोदित किया गया था। उपरोक्त परिणाम सांविधिक अंकेक्षकों की पुनरीक्षण रिपोर्ट सहित बीएसई लिमिटेड ('बीएसई') वेबसाइट (URL.www.bseindia.com) नैशनल स्टॉक एक्सचेन्ज ('एनएसई') वेबसाइट (URL.www.nseindia.com) तथा कम्पनी की वेबसाइट (URL.www.jtekt.co.in) पर उपलब्ध है। वित्तीय परिणाम कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखांकन मानक ('IndAS') की मान्यता और माप सिद्धांतों के अनुसार तैयार किए गए हैं।
- बोर्ड ने दिनांक 30 मई, 2024 को सम्पन्न इसकी बैठक में वित्तीय वर्ष 2023—24 के लिए ₹ 1.00 प्रत्येक के इक्विटी शेयर पर 60% अर्थात ₹ 0.60 प्रति इक्विटी शेयर की दर पर ₹ 1,525.68 लाख का अंतिम लाभांश विचारित एवं संस्तृत किया है। उक्त संस्तृति, दिनांक 13 अगस्त, 2024 को आयोजित की जाने वाली शेयरधारकों की वार्षिक सामान्य बैठक में उनके द्वारा स्वीकृति के अधीन है।

कृते एवं हिते निदेशक मंडल जेटेक्ट इंडिया लिमिटेड

आरक्षित मूल्य

थान : गुरूग्राम अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक दिनांक : 01 अगस्त. 2024

# IndusInd Bank 🕝

शाखा तथा खाता/

पंजीकृत कार्यालयः इंडसलैंड बैंक लिमिटेड, 2401 जनरल थिमैया रोड (छावनी), पुणे -411001, भारत अंचल कार्यालय : फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग एण्ड रीकंस्ट्रक्शन ग्रुप, 11वीं मंजिल, हयात रीजेंसी कॉम्प्लेक्स, न्यू टावर, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-11006

#### ई-नीलामी बिक्री सूचना अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी की सार्वजनिक सूचना

प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के परंतुक के साथ पठित वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभृतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ('अधिनियम') के तहत इंडसइंड बैंक के पास बंधक अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना।

सामान्य रूप से आम जनता को और विशेष रूप से कर्जदार(रॉ)/बंधककर्ता(ऑ)/गारंटर(रॉ) को नोटिस दिया जाता है कि इंडसइंड बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी ने बैंक के बकायों तथा नीचे वर्णित अन्य व्ययों की वसुली के लिए वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत जारी सुचना द्वारा की गयी मांग के अनुपालन में निम्नलिखित ऋण खाते में 'जहां है जैसे है, जो है यही है, जो कुछ भी है वहीं है तथा आश्रय रहित आधार' पर बेचने के अधिकार सहित नीचे उल्लिखित सम्पत्तियों पर भौतिक कब्जा कर लिया है और जबकि और जबकि बकाया राशि चुकाने में विफलता के परिणामस्वरूप, उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्रदत्त शक्ति के साथ उक्त नियमों के नियम 8 के तहत अधोहस्ताक्षरी उक्त संपत्ति/संपत्तियों की बिक्री द्वारा बैंक की बकाया राशि वसूलने का प्रस्ताव करता है। नीचे उल्लिखित संपत्तियों की बिक्री वेब पोर्टलः https://www.bankeauctions.com के माध्यम से ई-नीलामी द्वारा की जाएगी। अचल संपत्तियों का विवरण / खाते का विवरण / राशि / ईएमडी / आदि

> . सम्पत्ति के बंधककर्ता तथा गारंटरों ई-नीलामी की सम्पत्ति का विवरण मांग सूचना के अनुसार तिथि⁄समय तिथि एवं के नाम राशि करने की मांग सूचना की तिथि अन्तिम तिथि समय

कर्जदार का नाम बोली वृद्धि राशि इंडसइंड बैंक लिमिटेड, बंधककर्ताः मेसर्स सेवमैक्स होलसेल युनिट संख्या ए-39 निचले तल पर ₹. 13,85,22,343/-28.08.2024 17.08.2024 ₹. 5,49,00,000/ 12:30 बजे 01:00 बजे मांग सुचना की तिथि को 4:00 क्लब प्राइवेट लिमिटेड (परिसमापन स्थित है जिसका कुल क्षेत्रफल ₹. 54,90,000/-बजे अप. मेसर्स सेवमैक्स होलसेल क अप. से 01:30 अप. से ०३:० 15058 वर्ग फीट है तथा पार्कर मॉल ₹. 2.00.000/ बजे अप. प्राइवेट लिमिटेड गारंटरः श्री वैभव सिंघल पुत्र श्री ज्ञान कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स, जी.टी. रोड, 30 सितम्बर, 2019 तक तक बजे अप चंद अग्रवाल, सुश्री सीमा गुप्ता पत्नी श्री एन.एच.-1, सेक्टर-62, कुंडली, बकाया तथा ऋण सविधाओं के तहत पर्ण एवं अन्तिम भगतान की तिथि तक लागतों एवं व्ययों सहित परिसमापन में ) खाता संख्या 618000010792 ज्ञान चंद अग्रवाल सोनीपत, हरियाणा में स्थित।

प्राधिकृत अधिकारी का नाम∕फोन नम्बर∕ईमेल आईडी- श्री नितिन महाजन मोबाइलः 9717375920 Nitin.Mahajan@indusind.com

प्रम और शर्तें: 1. यह ई-नीलामी 'जहां है जैसे है, जो है <mark>यही है, जो कुछ भी है वहीं है तथा आश्रय रहित आधार</mark>' पर आयोजित की जा रही है। 2. इच्छुक बोलीदाता वेब पोर्टल https://sarfaesi.auctiontiger.net के माध्यम से लॉगिन आईडी और पासवर्ड द्वारा अपना ईएमडी विवरण और दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे (यूजर आईडी और पासवर्ड https://sarfaesi.auctiontiger.net वे ताथ नाम दर्ज करके निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है।) ईएमडी को डिमांड ड्राफ्ट (लाभार्थी – संड्री एकाउंट एसेट मैनेजमेंट) के माध्यम से सममूल्य पर देय, ऊपर दी गई तालिका में उल्लिखित तिथियों को शाम 4.00 बजे तक जमा किया जाना चाहिए। कृपया ध्यान दें कि चेक को ईएमडी राशि के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। इच्छूक बोलीदाताओं को केवाईसी दस्तावेज, जैसे कि पैन कार्ड की प्रति; पहचान प्रमाण/पता प्रमाण केवाईसी) जैसे कि मतदाता पहचान पत्र/ड्राइविंग लाइसेंस/पासपोर्ट/राशन कार्ड आदि की स्व-सत्यापित प्रति भी जमा करने होंगे और सत्यापन के लिए उनकी मूल प्रति साथ लानी होगी। 3. प्राधिकृत अधिकारी के सर्वोत्तम ज्ञान और जानकारी के अनुसार, संपत्ति के संबंध में बैंक के रिकॉर्ड के अनुसार बताए गए को छोड़कर कोई भी ऋणभार या दावा नहीं है, जिसमें संपत्ति कर, सोसायटी शुल्क, बिजली शुल्क आदि जैसे वैधानिक शुल्क शामिल हैं। हालांकि बैंक किसी भी बकाया वैधानिक शुल्क / ऋणभार / नगर निगम शुल्क / रखरखाव शुल्क / बिजली शुल्क, शुल्क / कर बकाया आदि, यदि कोई हो, के लिए जिम्मेदार नहीं होगा और यह खरीदार की रकमात्र देयता होगी। इच्छूक बोलीदाताओं को भार, रखरखाव शुल्क, भृमि–उपयोग, कर, वैधानिक शुल्क, बिजली शुल्क, जल शुल्क, संपत्ति के स्वामित्व आदि के बारे में अपनी स्वतंत्र जांच करनी चाहिए और बोली जमा करने से पहले निरीक्षण और खुद को संतुष्ट करना चाहिए। एक बार बोली जमा हो जाने के बाद, यह माना जाएगा कि इच्छित बोलीदाता ने संपत्ति के संबंध में सभी पहलुओं से खुद को संतुष्ट कर लिया है। 4. संपत्तियों का निरीक्षण उपर्यक्त दिनांक और समय पर ही किया जा सकता है। 5. पार्कर मॉल में स्थित संपत्ति एक बड़ा हॉल है जिसमें 8 एकीकृत इकाइयां हैं. जिनमें से 1 इंडसइंड वैंक लिमिटेड के पास विशेष रूप से बंधक है जिसका क्षेत्रफल 15058 वर्ग फीट है (जैसा कि कपर दी गई तालिका में बताया गया है) और शेष इकाइयां कमशः आईडीबीआई बैंक लिमिटेड, साउथ इंडियन बैंक और एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के पास विशेष रूप रे बंधक हैं। ६. इच्छक बोलीदाता जिन्होंने ईएमडी जमा कर दी है और उन्हें लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाने. डेटा अपलोड करने. बोली जमा करने. ई-बोली प्रक्रिया पर प्रशिक्षण आदि में सहायता की आवश्यकता है. व हमारे सेवा प्रदाता मैसर्स ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (ऑक्शन टाइगर), अहमदाबाद, हेल्पलाइन नं: ०७७-68136880/68136837, श्री राम शर्मा मोबाइल: ९९७८5९1888, हेल्पलाइन ई-मेल आईडी amprasad@auctiontiger.net और support@auctiontiger.net से संपर्क कर सकते हैं और संपत्ति से संबंधित किसी भी पूछताछ के लिए कार्य दिवसों के दौरान कार्यालय समय में (सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक) कपर उल्लिखित प्राधिकृत अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। 7. उच्चतम बोली इंडसइंड बैंक लिमिटेड के अनुमोदन के अधीन होगी। प्राधिकृत अधिकारी बिना कोई कारण बताए किसी भी विशिष्ट संपत्ति, संपत्तियों की संख्या या सभी के संबंध में प्राप्त सभी या किसी भी प्रस्ताव / बोलियों को स्वीकार / अस्वीकार करने या नीलामी को रद्द करने का अधिकार सरक्षित रखता है। उसका निर्णय अंतिम और बाध्यकार होगा। यदि उच्चतम बोलीदाता इस नीलामी नोटिस की शर्तो और नियमों में निर्धारित समय के भीतर पूरी बिक्री राशि जमा करने में विफल रहता है, तो प्राधिकृत अधिकारी अपने विवेक से संपत्ति को दूसरे उच्चतम बोलीदात को पेश कर सकता है, लेकिन इसे अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है। s. इच्छुक पक्षों को भूमि, भवन और अन्य विवरणों के क्षेत्र को स्वतंत्र रूप से सत्यापित करने की सलाह दी जाती है। प्रतिभूत लेनदार प्रतिभूत परिसंपत्ति में किसी भी त्रुटि / चूक / विसंगति / कमी आदि के लिए या किसी भी अनुमति आदि प्राप्त करने या कानून द्वारा स्थापित किसी भी प्राधिकरण के बकाए के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। ९. बिक्री प्रतिभत लेनदार द्वारा पष्टि के अधीन होगी। सफल बोलीदाता को बोली की स्वीकृति के तरंत बाद यानी उसी दिन या अधिकतम अगले कार्य दिवस तक कल बोली राशि / खरीद मल्य (ईएमडी की राशि समायोजित करने के बाद) का 25%, और बोली राशि / खरीद का शेष 75% अचल संपत्तियों की बिक्री की पुष्टि के 15 दिनों के भीतर या खरीदार, प्रतिभूत लेनदार द्वारा सहमत ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर, किसी भी मामले में 3 (तीन) महीने से अधिक नहीं, जमा करना होगा। 10. यदि सफल बोलीदाता ऊपर बताए अनुसार शेष बिक्री मूल्य का भुगतान करने में विफल रहता है, तो बैंक द्वारा बिना किसी नोटिस के ईएमडी सहित सभी जमा राशि जब्त कर ली जाएगी और संपत्ति को फिर से बेचा जाएगा। 11. असफल बोलीदाता की ईएमडी नीलामी बिक्री कार्यवाही बंद होने के 05 कार्य दिवसों के भीतर वापस कर दी जाएगी। वापस की गई ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। 12. क्रेता को स्टांप शल्क और शल्क. बिकी प्रमाण पत्र पंजीकरण शल्क. सरकार को देय सभी वैधानिक बकाया. कर और दरें. संपत्तियों से संबंधित मौजदा और भावी दोनों का भगतान करना होगा। 13. इंडसइंड बैंक लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी को बिना कोई कारण बताए नीलामी को स्थगित / रद करने का अधिकार सुरक्षित है। ( विस्तृत नियम व शर्तों के लिए कृपया हमारी वेबसाइट https://www.indusind.con और मेसर्स ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (ऑक्शन टाइगर) के वेब पोर्टल https://sarfaesi.auctiontiger.net देखें)

सरफैसी अधिनियम, 2002 के नियम 8(6) के तहत वैधानिक 15 दिनों की बिक्री सूचना

इसे प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(1) के तहत कर्जदारों/बंधककर्ताओं और गारंटरों को उपर्युक्त तिथि पर ई-नीलामी बिक्री के आयोजन के बारे में नोटिस के रूप में भी माना जाए। कर्जदार/गारंटर/बंधककर्ताओं को एतदद्वारा सुचित किया जाता है कि वे नीलामी की तिथि से पहले ऊपर बताई गई राशि के साथ–साथ नवीनतम ब्याज और अनुषमगी व्यय का भुगतान करें, जिसमें विफल रहने पर संपत्ति की नीलामी/बिक्री कर दी जाएगी औ बकाया राशि, यदि कोई हो, ब्याज और लागत के साथ वसुल की जाएगी।

स्थान : नई दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी, इंडसइंड बैंक लिमिटेड तिथि : 02.08.2024